

अनुस्मारक

विश्वभारती, शांतिनिकेतन



गणित सदन / Computer Centre
विश्वभारती / Visva-Bharati
सरांश सं./Docket No. ...10...
तिथि/Date ...13-5-17...

राजभाषा प्रकोष्ठ

सेवा मे,

दिनांक : 29.04.2017

सचालक/प्रिसिपल/विभागाध्यक्ष/अधिकारी/अनुभाग प्रमुख

विषय : हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने के संबंध में।

अनुरोध किया जाता है कि आपके विभाग में 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि की हिंदी की प्रगती प्रयोग संबंधी रिपोर्ट संलग्न प्रोफार्मा में भरकर आगे की कार्रवाई हेतु दिनांक 11.05.2017 तक राजभाषा प्रकोष्ठ में भिजवाने का काट करे ताकि इसे संप्रकाशित कर समय से राजभाषा विभाग, यूह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

31 अप्रैल 2017

कुलसचिव (कार्यकारी)

विश्वभारती, शांतिनिकेतन

३१
०५/०५/१७

प्रतिलिपि :

- निजी सचिव, मा. कुलपति
- विश्वविद्यालय वेबमास्टर से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।

कोर सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सेवन व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/व्यापक निकायों
आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विभाषी प्रगति रिपोर्ट

..... को समाप्त तिमाही
भाग - 1 (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता -

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात।
 - (क) जारी कागजात को कुल संख्या -
 - (ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किए गए कागजात -
- इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचना, नियम, करार, संविदा, टैंडर नोटिस, सेमर्दीय प्रश्न आदि शामिल हैं।
2. हिंदी में प्राप्त भव (राजभाषा नियम - 5)
 - (क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की सं.. -
 - (ख) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए -
3. भेजे गए कुल पत्रों का ब्योरा।

हिंदी/द्विभाषी में	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की हिंदी/द्विभाषी में भेजे कुल संख्या	भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
1	2	3	4
'क' क्षेत्र को			
'ख' क्षेत्र को			
'ग' क्षेत्र को			

4. फाइलों पर हिंदी में कार्य।
तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियाँ

उल्लिखित सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार यही है।

विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षण
अध्यक्ष का नाम
पदाधार
फोन नम्बर
फैक्स नम्बर
ई-मेल पता

नोट : 1. यह रिपोर्ट विभागीय के अध्यक्ष से हस्ताक्षरित न होने पर लौटा दी जाएगी।
2. कोई भी कॉलम छाली न छोड़ जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।